

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, मुख्य प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए 2022 के प्रोविंसियल चुनाव के उम्मीदवारों की हिमायत कर रही है

ब्रैम्पटन, ओन्टारियो (25 मई, 2022) – 2 जून के प्रोविंसियल चुनाव (Provincial Election) से पहले, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की गवर्नमेंट रिलेशन्स (Government Relations) टीम और मेम्बर्स ऑफ काउंसिल (Members of Council), लगातार, सिटी की मुख्य प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में मदद के लिए इनकी हिमायत कर रहे हैं।

सिटी की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल हैं:

- मेन स्ट्रीट (Main Street) से ब्रैम्पटन गो (Brampton GO) के साथ-साथ, लाइट रेल ट्रांज़िट (एल.आर.टी.) (Light Rail Transit) (LRT) के लिए फंडिंग
- क्वीन स्ट्रीट-हाईवे 7 बस रैपिड ट्रांज़िट (बी.आर.टी.) (Queen Street-Highway 7 Bus Rapid Transit) (BRT) और रीजनल कनेक्शन
- ई-बस फ्लीट के लिए तीसरी ट्रांज़िट फैसिलिटी को इलेक्ट्रिफाई करना
- रिवरवॉक (Riverwalk) प्रोजेक्ट – बाढ़ के जोखिम संबंधी लंबी-अवधि के समाधान
- ब्रैम्पटन में बेहतर हेल्थ केयर के निर्माण के लिए प्रतिबद्धताएं (पील मेमोरियल (Peel Memorial) का विस्तार/तीसरा अस्पताल/ कैंसर केयर)

ओन्टारियो सरकार (Government of Ontario), सिटी के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रांत से प्राप्त फंडिंग, भागीदारी वाला, स्वस्थ और स्थिर ब्रैम्पटन बनाने में मदद करती है और निवासियों की जीवन क्वालिटी में सुधार करती है। सिटी की प्रोविंसियल प्राथमिकताओं के बारे में, [यहां \(here\)](#) अधिक जानकारी प्राप्त करें।

2022 का ओन्टारियो प्रोविंसियल चुनाव (2022 Ontario Provincial Election), 2 जून, 2022 को होगा। निवासी, वोटिंग के बारे में अधिक जानकारी, [यहां \(here\)](#) प्राप्त कर सकते हैं।

हवाले

“ब्रैम्पटन, कॅनेडा के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले शहरों में से एक है और सिटी काउंसिल, हमारे निवासियों के लिए ट्रांज़िट का विस्तार, स्थिर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, अस्पताल की अत्यधिक भीड़ और हॉलवे मेडिसिन को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी कम्युनिटी में सभी योग्य वोटर्स से मेरा अनुरोध है कि 2 जून को, 2022 के प्रोविंसियल चुनाव में अपना वोट दें। साथ ही, मैं उन्हें हमारी मुख्य

प्राथमिकताओं और ओनटैरियो सरकार के फंडिंग निवेदनों के बारे में, अधिक जानकारी प्राप्त करने की सलाह देता हूं। हम सफल उम्मीदवारों के साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की गर्वनमेंट रिलेशन्स टीम, हमारे निवासियों के लिए जीवन क्वालिटी में सुधार करने हेतु, ओनटैरियो सरकार में हमारे साझेदारों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम प्रांत के साथ मिलकर, भागीदारी वाला, स्वस्थ और स्थिर शहर बनाना जारी रखने के लिए उत्साहित हैं।”

- पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें! www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया
multiculturalmedia@brampton.ca